



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**  
**सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 (आषाढ 26, शक संवत् 1939)**  
**विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

**1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान**

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

**2. निधन का उल्लेख**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

- (1) श्री अनिल माधव दवे, केन्द्रीय राज्य मंत्री,
- (2) श्री प्रेम सिंह, सदस्य विधान सभा,
- (3) डॉ. दासारि नारायण राव, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) श्री फतेहभानु सिंह चौहान, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (5) श्री सत्यनारायण अग्रवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री नारायण सिंह पवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री के.पी.एस. गिल, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, पंजाब,
- (8) मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मृत व्यक्ति,
- (9) बालाघाट जिले के ग्राम खैरी में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति एवं
- (10) कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मृत व्यक्ति.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 (27 आषाढ, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भोपाल:**  
**दिनांक: 17 जुलाई, 2017**

**अवधेश प्रताप सिंह,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**